**FINANCIAL EXPRESS** 

# India 'priest' of world peace, but capable of replying to aggression: Rajnath

PRESS TRUST OF INDIA Arunachal Pradesh, June 17

**IN A STATEMENT** seen as an implicit message to Beijing, Defence Minister Rajnath Singh on Thursday said that though India is a peace loving country, it has the capability to reply to aggression.

Dedicating 12 strategic roads constructed by the Border Roads Organisation (BRO) to the nation here, Singh described India as a priest of world peace but added any serious disturbance to peace and tranquility in border areas would have adverse implications.

"We seek world peace (but) if someone shows us an aggressive attitude, we will respond," Singh said, adding the "new roads will help secure international borders."

Singhs' statement comes in

tory and has dubbed it ₹South Tibet in internal maps. The northern neighbour which fought a bloody borderwar with India in 1962 when it invaded parts of Arunachal pradesh including Tawang, often sends border patrols into areas controlled by India.

"last year in Galwan Valley, our

soldiers displayed exemplary

courage and valour in line of

duty. I salute all brave soldiers

who laid down their lives fight-

Arunachal Pradesh as its terri-

China also claims most of

ing for the nation."

In September last year, five the backdrop of China continuyoung Arunachali hunters were ing to hold on to positions in Hot allegedly kidnaped by Chinese Springs and Gogra Post on the troops from Sera-7, in Upper border, after clashes between Subansiri district of Arunachal the armies of the two Asian Pradesh. The youth were later giants in the bleak Galwan valreleased in Anjaw district, ley in Ladakh a vear ago. around 800 km from the state The defence minister said capital, after several days in Chi-

nese custody.

With no let up in India-China border tension, the Modi government is now looking to expedite work on border infrastructure, especially on roads leading to forward areas in the frontier state.

#### J&K integral part of India; no amount of questioning can change it: MEA

**INDIA ON THURSDAY** said J&K is an integral part of it and no amount of questioning can change the reality, an assertion that came following a letter by the Pakistan foreign minister to two UN officials over alleging a design by New Delhi to change the demographic composition of the region.

MEA spokesperson Arindam Bagchi also said cross-border terrorism is "unacceptable". "The Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral part of India. No amount of questioning can change the reality. Also cross border terrorism is unacceptable and no amount of justification can make it acceptable." —PTI

# The 40:30:30 formula: Class XII results to count marks in X & XI, results out by July 31

ANANTHAKRISHNAN G & **ARANYA SHANKAR** New Delhi, June 17

**ENDING UNCERTAINTY OVER** results of the Class XII board

examinations hit by the Covid-19 pandemic, the CBSE informed the Supreme Court Thursday that marks for the theory component will be calculated according to a 40:30:30 formula based on the student's performance in Classes XII, XI and X, respectively.

For the practical and internal assessment component, the student will be assessed according to the actual marks submitted by the school to CBSE. Schools will have to finalise the results and upload marks on the Board's link by July 15, after which CBSE will declare the results by July 31.

Students not satisfied with such an assessment process "will be given an opportunity to appear in examinations to be conducted by the board when conditions are conducive for holding the examinations" and "as perthis policy, marks scored in later exams," the CBSE said.

The bench of Justices A M Khanwilkar and Dinesh Maheshwari, while stating that there was no question of reversing its earlier decision to accept cancellation of the Class XII board exams by the CBSE owing to the Covid-19 situation, accepted the CBSE and ICSE schemes for assessing results of students on the basis of their performance in Classes XII, XI and X.

"After perusing the scheme presented by the concerned Boards, prima facie, we have no hesitation in accepting the

proceed on that basis," the bench said, adding that "the scheme must incorporate two aspects...The first is about providing for a Dispute Resolution mechanism in case the students apply for correction of the final result declared by the concerned Boards. The 2nd is about the timeline to be specified for (a) declaration of the result and (b) the date before which the optional examination will be conducted, subject

same and permit the Boards to

This is what Attorney General KKVenugopal informed the bench — CBSE Controller of Examination Sanyam Bhardwaj also stated this in his affidavit -- regarding the assessment formula:

to conducive situation and

logistical constraints".

■While assessing the theory por-

tion, Classes X and XI performances will be given 30% weightage each while that of Class XII will get 40% weightage.

Class XII marks will be evaluated based on Unit Test/Mid-Term/Pre-Board exams.

■ Class XI marks based on the theory component of the final exam.

theory component of the best three performing subjects out of the main five subjects. ■ Marks for Practical/Internal

Assessment etc. of Class XII will be on actual basis as uploaded by the school on the CBSE portal. In the affidavit, Bhardwai

#### ABM INTERNATIONAL LIMITED CIN: L51909DL1983PLC015585 Regd. Office: 10/60, Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi- 110 015 Phone: 011-41426055, Website: www.abmintl.in E-mail: vkgandhi@abmintl.in NOTICE OF BOARD MEETING

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 26" June, 2021at 10/60, Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi 110015, inter alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the company for the quarter and year ended

The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.abmintl.in and may also be accessed on Stock Exchange Website at http://www.nseindia.com.

Further, the Trading window of the Company pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 read with Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by designated persons of the Company has been closed for trading of Company's Equity Shares from 1" April, 2021 and would remain closed until 48 hours after the announcement of Audited Financial Results of the Company to Public. For ABM International Limited

Place: New Delhi Date: 17.06.2021 (Virender Kumar Gandhi) **Managing Director** DIN: 00244762

A part of your daily life' CIN: L74899DL1988PLC032166 Regd. Off.: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I. New Delhi-110 048, **Phone**: +91-11-26440917, 26440925 **Fax**: +91-11-26216922 Website: www.uflexltd.com. Email: secretarial@uflexltd.com NOTICE

Notice is hereby given that the following share certificate has been reported lost and the holders thereof have requested the Company for issue of duplicate certificate in lieu of the original reported lost. Any person(s) claiming/having any interest in the said shares or any person(s) having any objection to the issue of duplicate as aforesaid should write/ send his/her objection to the Company within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company would be free to consider issue of duplicate shares and the Company shall not be responsible for any loss, financial or otherwise, caused to any such persons.

Folio	Name Of Shareholder	Cert. No.	Distinctive No.	No. of Shares				
059070	S C Shah Shashi S Shah	400905	56217073-56217472	400				
For UFLEX LIMITED								

**AJAY KRISHNA** 

Sr. Vice President (Legal) & Company Secretary ACS No.3296 Address: C-001, Krishna Apra Residency, E-8. Sector-61. Noida-201301

Ċ	वेनस (सम्बद्धाः	তৈ Canara Bank		Undelivered Demand Notice
7.	Branch	Name of the Borrower / Guarantor	Detailed Of Mortgaged Property	Date of Sending Demand Notice by Regd./ Speed Post: 07.06.2021
í	Chouki	1.Sri Ram Chandra Lal Rathore S/o Sri	Residential House at part of Kahsra No.297 & 298	Date of Demand Notice: 04.06.2021
Z. Kı		Sithora, Sanaiya Road, Bareilly  2. Sri Aman Kumar S/o Sri Virendra Kumar, H.N12, Mohalla-Shanti Vihar,	,Village Sithora Bareilly . Area 140.46 Sqm. (as per sale deed) Bounded by: North: Rasta, South: Araji Om Prakash, East: Rasta, West: Araji Ved Prakash	Amount due as per Demand Notice Rs. 1008625.82 as on 02.06.2021 + future Interest

Place: NOIDA

Date : 17.06.2021

No.		/ Guarantor	Property	Regd./ Speed Post: 07.06.2021
1. Chouki Chouraha, BARIELLY		Mool Chand, Mohalla- Shanti Vihar ,Vill Sithora, Sanaiya Road ,Bareilly	Residential House at part of Kahsra No.297 & 298 ,Village Sithora Bareilly . Area 140.46 Sqm. (as per sale deed) <b>Bounded by: North:</b> Rasta, <b>South:</b> Araji Om Prakash, <b>East:</b> Rasta, <b>West:</b> Araji Ved Prakash	Amount due as per Demand Notice
2.	BARIELLY EAST, BARIELLY	Sri Sartaj Khan S/o Sri Bundoo Khan, Anand Vihar Colony, Quila, Bareilly     Also at     Sri Sartaj Khan S/o Sri Bundoo Khan, Village Benipur Chaudhary, Bareilly     Sri Shairab Khan S/o Sri Shahid Ulla Khan, 86, Jakhira, Quila, Bareilly		Date of Demand Notice: 04.06.2021  Amount due as per Demand Notice  Rs. 802656.96 as on 04.06.2021 + future Interest & Expenses from 01.06.2021
3.	BARIELLY EAST, BARIELLY	Sri Irshad S/o Sri Kallu, H.No.81, Bakarganj, Bareilly Also at     Sri Irshad S/o Sri Kallu, Village Sarai Talfi Mustakil Tehsil & Distt.Bareilly     Sri Shariq Beg S/o Sri Anwar Beg, Jasoli, Bareilly	Residential House at Village Sarai Talfi Mustakil (Part of Khasra no. 15,16,13,14&3), Tehsil & Distt. Bareilly. Area 83.61 Sqm. (as per sale deed) Bounded by: North: Property of Seller, South: Property of Seller, East: Khet of Abrar, West: Rasta	Date of Demand Notice: 04.06.2021  Amount due as per Demand Notice  Rs. 765825.09  as on 04.06.2021 + future Interest  & Expenses from 01.06.2021
4.	BARIELLY EAST, BARIELLY	Sri Shariq Beg S/o Sri Anwar Beg, Jasoli, Bareilly     Sri Sartaj Khan S/o Sri Bundoo Khan, Vill. Benipur Choudhary, Bareilly	(Part of Khasra no.15,16,13,14&3), Tehsil & Distt.	Date of Demand Notice: 04.06.2021  Amount due as per Demand Notice  Rs. 712401.88  as on 04.06.2021 + future Interest  & Expenses from 01.06.2021
5.	BARIELLY EAST, BARIELLY	Sri Inam Miyan S/o Sri Mohd. Miyan, 93, Jasoli Akhon Jadon Ki Masjid , Bareilly Also at     Sri Inam Miyan S/o Sri Mohd. Miyan, Vill Sarai Talfi Mustakit, Tehsil & Distt Bareilly     Sri Sunny Khan S/o Sri Shahjad Khan 432, Zakhira Near Piya Khan Ki Tal, Bareilly	Residential House at Village Sarai Talfi Mustakil ( part of Khsra no. 15, 16, 13, 14&3), Tehsil & Distt. Bareilly . Area 83.61 Sqm. (as per sale deed) Bounded by: North: Rasta, South: Aaraji of seller, East: Aaraji Shariq Beg, West: Rasta	Date of Demand Notice: 04.06.2021 Amount due as per Demand Notice
6.	BARIELLY EAST, BARIELLY	M/s Palak Suit and Saree (Prop. Gaurav Mishra), Near Shyam Lal Sweets, Bara Bazar, Bareilly     Sri Gaurav Mishra S/o Sri Chhatra Pal Mishra, H.No.671, Ganesh Nagar, Sithora Road, Bareilly     Smt. Ramakanti W/o Sri Chhatra Pal Mishra, H.No.671, Ganesh Nagar, Sithora Road, Bareilly     Sri Islam Khan S/o Sri Saleem Parvez, Jogi Nawada, Bada Kabristhan, Near Gopal School, Bareilly	Khasra no.500. 535), Tehsil & Distt. Bareilly. Area 75.25 Sqm. (as per sale deed)  Bounded by: North: Rasta, South: Plot of other Person, East: Aaraji Ram Autar and Har Prasad, West: Plot of Raj Pal	Date of Sending Demand Notice by Regd./ Speed Post: 08.06.2021 Date of Demand Notice: 07.06.2021 Amount due as per Demand Notice Rs. 667113.27 as on 07.06.2021 + future Interest & Expenses from 01.06.2021
7.	EKTA NAGAR, BARIELLY	Sri Azeem Ahmad S/o Sri Shafeek Ahmad, H. No 564, Mohalla Rohili Tola, Bareilly Also at     Sri Azeem Ahmad S/o Sri Shafeek Ahmad, Mohalla Jagatpur Lala Begurn, Bareilly     Sri Imtayaj Ahmad S/o Sri Sarfaraj Ahmad, H no316/D Chak Mahmood, Near Nawab Sahaib Ki Kothi, Bareilly	Begum, Bareilly. Area 50.166 Sqm. (as per sale deed)  Bounded by: North: House of Nirali Begum, South: Rasta, East: Plot of Saddan Bala, West: House of Parvez	Rs. 771440.64
8.	EKTA NAGAR, BARIELLY	Singh, H. No242, Near Shiv Mandir, Mohalla- Chak Mahmood, Bareilly 2. Sri Srinath Prajapati S/o Sri Ramfer	Residential House Near Shiv Mandir Mohalla- Chak Mahmood, Bareilly. Area 50Sq Yard. (as per sale deed) Bounded by: North: House of Mangal Singh, South: Rasta, East: Aaraji of Hukum Singh, West: Aaraji of Mangal Singh	Amount due as per Demand Notice Rs. 439417.93
9.	BARIELLY EAST, BARIELLY	Sri Suresh Kumar S/o Sri Tara Chand, Road No.1,Ram Nagar Colony, Rehpura, Bareilly     Smt. Annu W/o Sri Suresh Kumar, Road No.1,Ram Nagar Colony, Rehpura Bareilly     Sri Babla S/o Sri Patras, H.No.46 Pyare Lal Colony,Premnagar, Bareilly	khasra no.70) Mohalla Partapur Chaudhary Bareilly Area 64.38 Sqm. (as per sale deed) Bounded by: North: House of Kamla Devi & plot of Saroj Singh, South: Rasta, East: Property of Kashyap Ji, West: House of Gopal Mitra	Date of Demand Notice: 07.06.2021 Amount due as per Demand Notice Rs. 996982.92 as on 07.06.2021 + future Interest & Expenses from 01.06.2021
10.	Rajendra Nagar , BARIELLY	<ol> <li>Smt. Somwati W/o Sri Nanhe Lal, Dohra, Kusum Nagar, Bareilly</li> </ol>	House at Dohra, Kusum Nagar (part of khasra no. 383), Bareilly Area 106.88 Sqm. (as per sale deed) Bounded by: North: Rasta, South: House of Ravindra Singh Chauhan, East: House of Ram Prakash, West: Plot of Saxena Sahib	Date of Sending Demand Notice by Regd./ Speed Post: 09.06.2021 Date of Demand Notice: 08.06.2021 Amount due as per Demand Notice

H.No.C-441, Rajendra Nagar, Bareilly We have already issued detailed demand notice u/s 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Speed Post / Registered post to you which has been returned undelivered/ Refused. You can collect the original notice/ cover addressed to you, returned by courier/postal authorities from the undersigned & to pay the balance outstanding amount with Interest & costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid future action under

1. Sri Javed Shamshi S/o Sri Habib House at Mohalla Chawani Ashraf Khan (part of Date of Demand Notice: 08.06.2021

Area 83.61 Sqm. (as per sale deed)

Area 16.28 Sqm. (as per sale deed)

West: House of Shamshul Hasan

2. Sri Hari Nandan Sagar S/o Sri Budh House of Khan Shaib, East: Rasta, West: House Date of Demand Notice: 09.06.2021

House of Haneef

Kotwali Bareilly

2. Smt.Anita Arora W/o Sri Subhash Bounded by: North: Rasta, South: House of Haji

Arora, H.No.C-441, Rajendra Nagar, Noor Hasan, East: Shop of Meraj Miyan & Zeena,

1. M/s Hari General Store (Prop. Hari House at Mohalla Partapur Chaudhary, Bareilly

Bounded by: North: Rest house of vendor.

Bounded by: North: House of Ram Pal, South:

Shop No.ED-21/136 New No153/89 at Agab

South: House of other, East: Passage, West:

We have indicated our intention for further action under sarfesi Act 2002 as per section 13(4) of the Act in case of your failure to pay the amount mentioned above within 60 days. Date: 17.06.2021

Place: BARIELLY

(This is only an advertisement for information purpose and not a prospectus announcement.) **ABHISHEK INTEGRATIONS LIMITED** 

Our Company was incorporated as "Abhishek Integrations Limited" at Ahmedabad on November 10, 2017, under the provisions of the Companies Act, 2013 vide

certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre

Registered office: Shop No. 8-Parulnagar Shopping Centre, Nr. Bhuyangdev Cross Road, Sola Road, Ghatlodia, Ahmedabad- 380061 (Gujarat) Website: www.abhishekintegrations.com | E-Mail: abhishekintegrationslimited@gmail.com | Telephone No: + 079- 27433369

Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Hetal Karshanbhai Vaghela

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. SANJAY NARBADA DUBEY

BASIS OF ALLOTMENT BASIS OF ALLOTMENT SME IPO (NSE EMERGE)

PUBLIC ISSUE OF 9,90,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF ABHISHEK INTEGRATIONS LIMITED ("ABHISHEK" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 50 (THE "ISSUE PRICE") PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ 40 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 495.00 LAKH ("THE ISSUE"), OF WHICH 54,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 50 PER EQUITY SHARE INCLUDING A "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 9,36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT A PRICE OF ₹ 50 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 40 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 468.00 LAKH IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 32,88% AND 31,09% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

In terms of Prospectus dated June 01, 2021 and as per 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 wherein allocation in the net offer to the public category shall be: (a) minimum of 50 % to Retail Individual Investors and (b) remaining to i) individual applicants other than retail individual investors and ii) other investors including corporate bodies or institutions, irrespective of number of specified securities applied for, Provided that the unsubscribed portion in either of the categories specified in clauses (a) or (b) may be allocated to applicants in the other category.

Explanation: If the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent, of the Net issue size on a proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage.

> THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 50 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 40/- PER EQUITY SHARE. THE ISSUE PRICE IS 5 TIMES OF THE FACE VALUE.

ISSUE WAS OPENED ON TUESDAY, JUNE 08, 2021 AND CLOSED ON FRIDAY, JUNE 11, 2021.

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on Emerge Platform of National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) In terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, our Company has received in principle approval letter dated May 27, 2021 from NSE for using its name

in this offer document for listing our shares on the Emerge Platform of NSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange is NSE. SUBSCRIPTION DETAILS

Details of Applications: The Issue has received 657 applications (before Technical Rejections but after removing 2,557 applications for 77,22,000 shares for which "bid filed but not banked) for 21,12,000 Equity Shares (Including Market Maker Application of 54,000 Equity Shares) resulting 2.1333 times subscription. The details of the applications received in the Issue (before Technical Rejections but after removing after removing 2,557 applications for 77,22,000 shares for which "bid filed but not

Category **Number of Applications Number of Equity Shares** Subscription Ratio Market Maker 54.000 1.0000 Times 138,000 0.2949 Times Non Retail Investor's 16

Details of the valid Applications Received (before Technical Rejections but after removing 83 applications for 2,49,000 shares for which "bid filed but not banked):

640 1,920,000 4.1026 Times Retail Individual Investor's 657 2.112.000 2.1333 Times

Total 28 applications for 84,000 shares in Retail Individual Investors Category were rejected on technical grounds. Further, there was no withdrawal of application in any

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange NSE on June 16, 2021.

A. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 50/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.000 time. The total number of shares allotted in this category is 54,000 Equity shares in full, out of reserved portion of 54,000 Equity Shares.

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 50/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 4.1026 times (Before Technical Rejection). Total number of shares allotted in this category is 7,98,000 Equity Share as under; No of No Of % to Total No % to Propor- Allocation Allocation Ratio of Serial Number of % to Total No % to Surplus/

Shares Applied for (Category wise)	Applica- tions recei- ved	Total	of Equity Shares applied	Total	tionate Shares Available	per Applicant (Before Rounding Off)	per Applicant (After Rounding Off)	Allottee's To Appli- cant		Successful applicants (After Rounding Off)		of Equity Shares alloca- ted/ allotted	Total	(Deficit)
3000	612	100.00	18,36,000	100.00	7,98,000	1303.92	3000	266:612	As below	266	100.00	7,98,000	100.00	0
Total	612	100.00	18,36,000	100.00	7,98,000					266	100.00	7,98,000	100.00	0

1. 6. 11. 12. 13. 14. 16. 19. 26. 29. 31. 34. 35. 37. 41. 43. 45. 46. 50. 57. 58. 59. 63. 66. 67. 68. 69. 70. 72. 75. 81. 83. 84. 85. 86. 88. 93. 94. 99. 100. 102. 103. 108

109, 110, 111, 115, 120, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 153, 156, 158, 159, 160, 162, 169, 170, 172, 173, 177, 181, 183, 186, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 199, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 218, 223, 228, 229, 233, 234, 242, 245, 246, 249, 253, 254, 255, 256, 338, 342, 346, 348, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 367, 368, 371, 372, 373, 374, 377, 381, 384, 388, 391, 393, 394, 396, 398, 401, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 418, 419, 420, 422, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 443, 444, 448, 449, 452, 454, 455, 457, 458, 462, 463, 465, 467, 469, 473, 474, 475, 480, 481, 483, 487, 488, 490, 491, 493, 494, 496, 499, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 512, 513, 514, 517, 519, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 533, 535, 542, 543, 544, 546, 551, 555, 556, 558, 559, 561, 563, 565, 573, 574, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 588, 590, 598, 601, 608, 610

C. Allocation to Non Retail Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to the Non Retail Investors, at the issue price of ₹ 50/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 0.2949 times. Total number of shares allotted in this category is 1,38,000 Equity Shares. The category wise basis of allotment is as under: No. of No. Of % to Total No. % to Propor- Allocation Allocation Ratio of Serial Number of % to Total No. % to Surplus/

| Shares<br>Applied<br>for<br>(Category<br>wise) | Applica-<br>tions<br>recei-<br>ved | Total  | of Equity<br>Shares<br>applied | Total  | tionate<br>Shares<br>Available | per<br>Applicant<br>(Before<br>Rounding<br>Off) | per<br>Applicant<br>(After<br>Rounding<br>Off) | Allottee's<br>To Appli-<br>cant | Number<br>of Quali-<br>fying<br>appli-<br>cants | Successful<br>applicants<br>(After<br>Rounding<br>Off) | Total  | of Equity<br>Shares<br>alloca-<br>ted/<br>allotted | Total  | (Deficit) |
|--|------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|--------|--|--------|-----------|
| 6,000  | 12                                 | 75.00  | 72,000                         | 52.17  | 2,44,175                       | 20,347.83                                       | 6,000  | 1:1                             | 5 50 S  | 12   | 75.00  | 72,000   | 52.17  | -1,72,175 |
| 9,000  | 2                                  | 12.50  | 18,000                         | 13.04  | 61,043                         | 30,521.5  | 9,000  | 1:1                             | Firm  | 2  | 12.50  | 18,000   | 13.04  | -43,043   |
| 18,000   | 1                                  | 6.25   | 18,000                         | 13.04  | 61,043                         | 61,043  | 18,000   | 1:1                             | Allotment                                       | 1  | 6.25   | 18,000   | 13.04  | -43,043   |
| 30,000   | 1                                  | 6.25   | 30,000                         | 21.74  | 1,01,739                       | 1,01,739  | 30,000   | 1:1                             |   | 1  | 6.25   | 30,000   | 21.73  | -71,739   |
| Total  | 16                                 | 100.00 | 1,38,000                       | 100.00 | 4,68,000                       |   |  |                                 |   | 16   | 100.00 | 1,38,000   | 100.00 | -3,30,000 |

The Board of Directors of the Company at its meeting held on June 16, 2021 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the dispatch of share certificates to various successful applicants. The allotment advice and/or notices are being dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories. Further, the instructions to Self-Certified

Syndicate Banks were being processed on or before June 17, 2021. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within Six working days from the date of the closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on Monday, June 21, 2021 subject to receipt of final listing and trading approvals from the NSE.

- INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, Link Intime India Private Limited at www.linkintime.co.in. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:



LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED Address: C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra Tel. Number: +912249186200:

Fax Number: +912249186195; Website: www.linkintime.co.in SEBI Registration Number: INR000004058; Contact Person: Ms. Shanti Goapalkrishnan;

Email/ Investor Grievance E-mail: ail.ipo@linkintime.co.in

For ABHISHEK INTEGRATIONS LIMITED Sanjay Narbada Dubey

Chairman and Managing Director DIN: 02218614 Date: June 17, 2021

On behalf of the Board of Directors

Place: Ahmedabad

CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED JUNE 01, 2021

This Addendum Cum Corrigendum should be read in conjunction with the Prospectus filed with the Registrar of Companies. Ahmedabad on Jun 01, 2021; On Page 30 of the Prospectus, chapter titled as SECTION V - GENERAL INFORMATION, Issue Opens on [●] and Issue Closes on [●] Should be read as Tuesday, June 08, 2021 and Friday, June 11, 2021 respectively.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ABHISHEK INTEGRATIONS LIMITED.

financialexp.epapr.in

Shamshi, 147, Chaudhary Mohalla, Garhi

Nandan Sagar) Siddarth Nagar, Partapur

3.Smt Ramwati W/o Sri Budh Sen, H. No

133, Partapur Chaudhary Near Hanumar

1.M/s Arora Garments (Prop. Anita

Arora) A3,A12,Super Market, Shastri

3.Sri Subhash Arora S/o Sri Krishan Lal.

Sen, H.No.133, Partapur Chaudhary, Near of Ashok

Chouki\_Bareilly

BARIELLY Chaudhary, Bareilly

BARIELLY Market, Bareilly

Town.

Hanuman Mandir, Bareilly

Mandir, Bareilly

khasra no.137), Bareilly . Area 37.08 Sqm. (as per Amount due as per Demand Notice

Authorized Officer

Rs. 960751.84

as on 08.06.2021 + future Interest

& Expenses from 04.06.2021

Rs. 471890.11

as on 08.06.2021 + future Interest

& Expenses from 17.05.2021

Date of Sending Demand Notice by

Regd./ Speed Post: 10.06.2021

Amount due as per Demand Notice

Rs. 760414.62

as on 08.06.2021 + future Interest

& Expenses from 01.06.2021

Date of Demand Notice: 09.06.2021

Amount due as per Demand Notice

Rs. 2058790.13

as on 08.06.2021 + future Interest

& Expenses from 01.06.2021

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

New Delhi

■ Class X marks based on average

said that to standardise the marking, the "total marks awarded should be in consonance with the past performance of the school in Class XII Board Examinations".

सम्पत्ति

की

विक्रय

सूचना

कृते कर्नाटका बैंक लिमिटेड

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालयं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-लखनऊ-10 नीलगिरी काम्पलेक्स, प्रथम तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ फोन/फैक्स - 0522-2355292, E-mail - cd13lko@upavp.com

पत्र सं0-998/ए०सी0-8/70

दिनांक - 17.06.2021

### र्ड-निविदा सचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से ई-निविदा सूचना सं0-981 / ए०सी0-8 / 68 दिनांक 15.06.2021 के माध्यम से राजनगर योजना, लखीमपुर में भुखण्ड सं०-191 से 204 में मिटटी भराई के कार्य हेत अर्ह श्रेणी में परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों से सिंगल बिड पद्धति पर ई-निविदा दिनांक 02.07.2021 को अपराहन 3.00 बजे तक तथा ई-निविदा सूचना सं0-994 / ए०सी०-8 / 69 दिनांक 17.06.2021 के माध्यम से जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सी०एच०सी० खैराबाद में आक्सीजन जनरेटर प्लान्ट के शेंड का निर्माण कार्य एवं राजकीय आर्यवेदिक एवं यनानी औषधि निर्माणशाला, उ०प्र० लखनऊ में सी०सी० रोड, ड्रेन एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य हेतु अर्ह श्रेणी में परिषद में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों / फर्मों से सिंगल बिड / ट्-बिड पद्धति पर ई-निविदा क्रमशः दिनांक 05.07.2021 एवं दिनांक 20.07.2021 के अपराहन 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। अन्य विस्तृत विवरण नियम व शर्ते सम्बन्धित निर्माण खण्ड लखनऊ-10, लखनऊ के कार्यालय तथा परिषद की वेबसाइट https://upavp.in /राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अधिशासी अभियन्ता

फार्म ने. आइएनसी-25ए

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013

की धारा 14 और कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 41 के विषय में।

दर्शन सॉल्यशन्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 52, आजाद रोड, बहराईच-271801 उत्तर प्रदेश के विषय में। ...आवेदक

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी

ऐसे बदलाव को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 15 जुन, 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी में बदलने की इच्छुक है और कंपनी ने ऊपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करने की इच्छक है कंपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल. पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन. सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या भेजें जाने का कारण को डिलीवर कर सकते है जिसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकत कार्यालय पर भेजनी है:

> कृते दर्शन सॉल्यूशन्स लिमिटेड गौरी शंकर भानीरामका

दिनाकः 15 जून, 2021 स्थानः पंजी. कार्या. 52, आजाद रोड, बहराईच-271801, उत्तर प्रदेश

फार्म नं. आइएनसी-25ए सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र. कारपोरेट मामलों

का मंत्रालय. नई दिल्ली के समक्ष कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों.

2014 के नियम 41 के विषय में। सपना फ्लोर मिल्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय अमीनपुर नागरौर बलरामपुर रोड, बहराईच-271801 यु.पी. के विषय में। ......आवेदक

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ऐसे बदलाव को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 15 जन. 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी में बदलने की इच्छ्रक है और कंपनी ने ऊपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है। कंपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर संबंधित क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र. बी-2 विंग. द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकत डाक द्वारा या भेजें जाने का कारण को डिलीवर कर सकते है जिसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है:

कते सपना फ्लोर मिल्स लिमिटेड

प्रमोद कुमार डालमिया दिनांकः 15 जून, 2021 स्थानः पंजी. कार्या. अमीनपुर नागरौर बलरामपुर रोड,

DIN 00981100 बहराईच-271 801, उत्तर प्रदेश

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लि समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय. नई दिल्ली के समक्ष कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 41 के विषय में।

फार्म ने. आइएनसी-25ए

म्युचुअल वाच एंड सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 52, आजाद रोड बहराईच-271801, उत्तर प्रदेश के विषय में।

सामान्य जनता को एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ऐसे बदलाव को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 15 जुन, 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी मे बदलने की इच्छुक है और कंपनी ने ऊपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करने की इच्छक है ंकंपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर संबंधित क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र. बी-2 विंग. द्वितीय तल. पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन. सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकत डाक द्वारा या भेजें जाने का कारण को डिलीवर कर सकते है जिसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है:

कृते म्यूचअल वाच एंड सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड गौरी शंकर भानीरामका

निदेशक 🛮 दिनांकः 15 जुन, 2021 DIN 00548675

स्थानः पंजी. कार्या. 52. आजाद रोड. बहराईच-271801, उत्तर प्रदेश

फार्म नं. आइएनसी-25ए सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विजापन

क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र. कारपोरेट मामलों

का मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013

की धारा 14 और कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों

2014 के नियम 41 के विषय में। साकेत फुड्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय

कालपीपारा असम रोड, बहराईच-271801 य.पी. के विषय में। सामान्य जनता को एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कंपर्न ऐसे बदलाव को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी क

सक्षम बनाने के लिए दिनांक 15 जुन, 2021 क आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी मे बदलने की इच्छ्रक है और कंपनी ने ऊपरकथित नियमो के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करने की इच्छक है ंकंपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सचना व प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर संबंधित क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र. बी-2 विंग. द्वितीय तल. पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन. सीजीओ कम्प्लैक्स. नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकत डाक द्वारा या भेजें जाने का कारण को डिलीवर कर सकते है जिसकी प्रति नीचे

वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है: कृते साकेत फुड्स लिमिटेड अतुल अग्रवाल

निदेशव दिनांकः 15 जून, 2021 DIN 00981049 स्थानः पंजी. कार्या. कालपीपारा असम रोड. बहराईच-271801, उत्तर प्रदेश

#### PREMIER POLYFILM LTD. Regd.Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre,

Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi -110048. CIN: L25209DL1992PLC049590. Phone: 011-29246481 Email: compliance.officer@premierpoly.com Website: www.premierpoly.com NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of Board of Directors of the company will be held on Tuesday, 29th June, 2021 at 11.30 A.M. at Registered Office of the company at 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre Kailash Colony Extension, Zamroodpur, New Delhi 110048 to consider and approve a Standalone Audited Financial Results of the company for the quarter and year ended 31st March, 2021, b) Audited Accounts of the company for the financial year 2020-2021 i.e. from 1st April, 2020 to 31st March, 2021 and Audited Balance Sheet/Audited Assets and Liability Statement as at 31st March, 2021 & Audited Cash Flow Statement as on 31st March, 2021, c) recommend payment of Dividend on equity shares for the financial year 2020-2021, d) delisting of securities of the company at BSE Limited and e) re-

appointment of Executive Director of the company. Further, trading window for dealing in the securities of the Company by the Insiders, as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 is closed from Thursday, 01st April, 2021 to Thursday, 01st July, 2021 (both days inclusive).

The notice is available on the Company's website www. Premierpoly.com and also or

www.bseindia.com and www.nseindia.com For PREMIER POLYFILM LTD.

Date: 19/06/2021 Place: New Delhi

COMPANY SECRETARY

परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए सचना क्लच ऑटो लिमिटेड (परिसमापन में) (माननीय एनसीएलटी के आदेश तिथि 15 फरवरी, 2018 के माध्यम से परिसमापन के अधीन कम्पनी)

कम्पनी का कार्यालयः 2-ई/14, 1ला तल, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली, डीएल 110055 आईएन दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री आवेदन करने तथा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि: 30 जून, 2021 ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 3 जुलाई, 2021, 12.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ द्वारा नियक्त परिसमापक द्वारा परिसमाप सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाली क्लच ऑटो लि. (परिसमापन के अधीन) की स्वामित्व की परिसम्पत्तिये

तथा सम्पत्तियों की बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफार्म https://www.eauctions.co.in के द्वारा की जाएगी। बिक्री के लिए परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का मल विवरणः

परिसम्पनि पता ⁄क्षेत्रफल ब्लॉक आरक्षित मूल्य ईएमडी ( आईएनआर ) परिसम्पत्ति (सैम्पल स्टॉक, पैकिंग सामग्री, प्लॉट नं. एसपी-173/174, 300000/-डब्ल्यआईपी, रॉ मैटेरियल तथा तैयार रिको इंडस्टियल एरिया, 3053300/-सामग्री भिवाड़ी में (परिसम्पत्तियों का कहरनी, भिवाडी, अलवर, विवरण बिक्री प्रक्रिया दस्तावेज का भाग है राजस्थान-201019 जो परिशिष्ट V के रूप में संलग्न है।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें तथा सम्पत्तियों के अन्य विवरण वेबसाईट अर्थाट http://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध है।

कोई भी इच्छक एवं संभावित क्रेता उसे देखकर उसके लिए बोली जमा कर सकते हैं। ई-नीलामी एजेन्सी (लिंकस्टार) की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः श्री दीक्षित प्रजापति ईमेल आईडी: admin@eauctions.co.in, मोबाईल नं. +91-7874138237 परिसमापक की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः सीए, स्वाती अरोड़ा, +91-9999781153

ईमेल आईडी: liquidator.clutch@gmail.com टेली. नं., मोबाईल नं. +91-9810063161

अरुणावा सिकदर, परिसमापक तिथि: 18 जुन, 2021 आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00022/2016-17/10047

स्थान : नई दिल्ली पंजी. पता : सी-10, एलजीएफ, लाजपत नगर पार्ट-III, नई दिल्ली-110024

प्रपत्र सं. युआरसी-2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग-I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और नियम 4(1) के अनसारी

कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के . एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, इसके पन्द्रह दिनों के बाद लेकिन इसके बाद तीस दिनों की समाप्ति से पहले केंद्रीय रजिस्ट्रार को एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है। पंजीकरण केंद्र, आईआईसीए. प्लॉट नंबर 6. 7. 8. सेक्टर 5. आईएमटी मानेसर. गृड़गांव-122050, हरियाणा, कि मैसर्स स्टिजेन मार्टेक एलएलपी एलएलपी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में। 2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: डिजिटल

प्रौद्योगिकी, सुचना प्रौद्योगिकी और माल और सेवाओं के विपणन के संबंध में सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने


3. प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति का निरीक्षण कार्यालय 164, सेक्टर-30, गुड़गांव-122001 में किया जा सकता है। 4. एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में रजिस्ट्रार को केंद्रीय पंजीकरण केंद्र, आईआईसीए, प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव-122050 हरियाणा में बीस के भीतर सचित कर सकता है -इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से एक दिन, कंपनी के पंजीकत कार्यालय में एक प्रति के साथ। आवेदक का नाम

Sanchit Babbar DIPIN: 08259825 (Designated Partner)

Protik Basu DIPIN: 08259826 (Designated Partner)

Joydeep Gangopadhyay DPIN: 06529760 (Designated Partner)

Place: Gurgaon



As part of this endeavour, ANIIDCO invites Request for Qualification (RFQ) Applications from interested developers to undertake Development, Operation and Maintenance of following Projects through Design, Build, Finance, Operate and Transfer (the "DBFOT") on Public Private

- Lalaji Bay, Long Island, Eco Tourism Resort 220 Keys
- b. Smith Island, Eco-Tourism Tents and Tree Houses 70 Keys
- c. Aves Island, Eco Tourism Tents 50 Keys d. Shaheed Dweep, Eco - Tourism Resort - 120 Keys

The detailed invitation for RFQ can be downloaded from website http://aniidco.and.nic.in (under "Announcements") or www.andaman.gov.in (under "What's New"). A Pre - Application Conference will held at 3.00 pm on 14.07.2021 through video conference. Last date for submission of RFQ applications is 25.08.2021.

A Draft Concession Agreement (DCA), prepared only for the purpose of initial understanding of the interested developers, is available on the website of ANIIDCO http://aniidco.and.nic.in or www.andaman.gov.in. The project specific DCAs will be issued to shortlisted bidders at the RFP stage.

> For further details, please contact: General Manager (Projects), ANIIDCO Ltd., Vikas Bhawan, Port Blair, Andaman & Nicobar Islands, India, Pin - 744101, E-mail: aniidco@gmail.com

> > Managing Director ANIIDCO

### एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN: L51909DL1983PLC015585

पंजी कार्यालयः 10/60 इंडस्टियल एरिया कीर्ति नगर. नई दिल्ली-110015

Phone: 011-41426055, Website: www.abmintl.in E-mail: vkgandhi@abmintl.in बोर्ड की बैठक की सचना

एतदहारा सचित किया जाता है कि सेबी (सचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 47 के अनुपालन में अन्य बातों के अलावे 3 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के स्टैंडएलॉन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 26 जून, 2021 को 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 में आयोजित की जाएगी।

यह सृचना कम्पनी की वेबसाईट http://www.abmintl.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

पुनः कम्पनी के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी का टेडिंग विण्डो कम्पनी की इक्विटी शेयरों में टेडिंग के लिय 1 अप्रैल. 2021 से बंद है तथा कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की सार्वजनिक घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेगा।

एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए हस्ता./- (वीरेन्दर कुमार गांधी) स्थानः नई दिल्ली तिथि: 17.6.2021 प्रबंध निदेशक DIN: 00244762

## SALORA

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1968PLC004962 पंजीकृत कार्यालय: डी-13/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-॥, नई दिल्ली-110 020 दुरभाष.:011-40115817 | ईमेल: sect@salora.com वेबसाइट: www.salora.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है सेबी (सूचीयन दायित्व तथ उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनिमय 47(1)(ए) साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की 286वीं बैठक मंगलवार, 29 जून, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय Ⅱ परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.salora.com तथा बीएसई लि. (स्टॉक एक्सचैंजों) की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com तथा पर भी देखी जा सकती है। पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी की शेयरों में कारोबार के लिये ्ट्रेडिंग विण्डो 17 जून, 2021 से 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वित्त वर्ष के लिए, उक्त वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे की समाप्ति तक निदेशकों, अधिकारियों, विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए बंद रहेंगे।

सलोरा इन्टरनेशनल लि. के लिये

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 17 जून, 2021 (गोपाल सीताराम जिबराजका अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DIN: 00024325

एचडीबी फाइनेंशियल सविसेज HDB STRVICES 13(2) के तहत माँग सूचना

शाखा कार्यालय : के एम प्लेस, 1ला तल, निकट होण्डा शोरूम झोटवारा, जयपुर, राजस्थान-302012 आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभृतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सुविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सुचना जारी की जिसका

विषय-वस्तु प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सचित किया जा रहा है। ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सुचना तिथि, सुचना में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभृतियों का विवरण 🚺 ऋ**णधारक एवं सह–ऋणधारकों का नाम**: मा एन्टेयर फुडस प्राईवेट लिमिटेड, विरासत रेस्टोरैन्ट, प्लॉट नं. बी, साहकर मार्ग, 22, गोडवन सर्किल, जयपुर

पंजीकृत कार्यालय : "राधिका", 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009

302005, साथ हीं: शॉप नं. 10 एवं 11, अशोक विहार चोमू जिला, जयपुर-302001, मनीश टम्बी-5/9, विद्याहार नगर, सेक्टर 5, धएर बालाजी वार्ड नं. 68, 🛮 जयपुर, राजस्थान-302023, संगीता टम्बी विरासत रेस्टोरैन्ट, प्लॉट नं. बी, साहकर मार्ग, 22, गोडवन सर्किल जयपुर-302005, राजेश टम्बी, 5/9, विद्याहार नगर, 🛮 सेक्टर-5, धएर बालाजी, वार्ड नं. 68, जयपुर, राजस्थान-302023, रिम टम्बी, वार्ड नं. 15, अशोक विहार, जयपुर रोड, चोमू त्रिपोलिया, जयपुर, राजस्थान-302001 तथा साथ हीं: शॉप नं. 10 एवं 11, अशोक विहार, चोम जिला जयपर-302001, ऋण खाता सं.: 1289991, ऋण राशि: रु. 3500000/-(रुपये पैंतीरु लाख मात्र); मांग सूचना तिथिः 07.04.2021, मांग की गई राशिः रु. 4188630.54 (रुपये इकतालिस लाख अठासी हजार छः सौ तीस एवं पैसे चौवन मात्र) 07.04.2021 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए तिथिः 03.02.2019; प्रतिभित का विवरणः शॉप नं. 10 एवं 11, अशोक विहार, माताजी का मंदिर के निकट, सीकर रोड, चोनू जिला, जयपुर-302001, राजस्थान का सभी भाग तथा हिस्सा सम्मत्ति का क्षेत्रफल (शॉप नं. 10-27 वर्ग यार्डस एवं शॉप नं. 11-27.77 वर्ग यार्डस); सम्मत्ति की चौहद्दीः उत्तर : रोड, पश्चिम : अन्य प्लॉट, पुर्वः रोड एव दक्षिणः शॉप नं. 9

👤 ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नाम: आनंद ऑटोमोबिल, भाटी मार्केट के सामने, मंडिया रोड, पाली-306401, साथ हीं: प्लॉट नं. 285, 286, खसर नं. 247, चाक नं. 1, राज नगर, पाली-306401, देवा राम, निर्मल डी तथा किस्तुर देवी, सभीः राज नगर सरदार सामन्द रोड, पाली-306401, ऋण खाता सं. 1120493, ऋण राशिः रु. 2200000/- (रुपये बाईस लाख मात्र), मांग सूचना तिथिः 27.03.2021, मांग की गई राशिः रु. 2335777.54 (रुपये तैईस लाख पैंतीस हजार सात सौ सतहत्तर एवं पैसे चौवन मात्र) 24 मार्च, 21 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए तिथिः 03.02.2020; प्रतिभृति का विवरणः प्लॉट नं. 285 एवं 286, खसरा नं. 247, चाक नं. 1, राज नगर, सरदार सामन्द रोड, पाली, मारवार-राजस्थान-306401, एरिया माप 222.22 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तर : प्लॉट नं. 226, एवं 227, पश्चिम : प्लॉट नं. 287, पूर्वः उम्मेदाराम जाट एवं दक्षिणः 20' रोड

🚺 ऋ**णधारक एवं सह-ऋणधारकों का नाम**: महेन्द्रा कन्सट्रक्शन्स, महेन्द्र कुमार शर्मा तथा मनीशा बी, सभी: प्लॉट नं. 73, तीजा विहार, मनयावास निकट न्यू श्याम पैराडाईज, जयपुर-302020; ऋण खाता सं.: 1181296, ऋण राशिः रु. 2000000/- (रुपये बीस लाख मात्र), मांग सूचना तिथिः 31.03.2021, मांग की गई राशिः रु. 1627084.98 (रुपये सोलह लाख सत्ताईस हजार चौड़सी तथा पैसे अन्ठानवे मात्र) 30 मार्च, 21 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसुली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए तिथिः 03.01.2020; प्रतिभृति का विवरणः सम्पत्ति प्लॉट नं. 73, तीजा विहार, मनयावास, संगनेर रोड, अंडर हसनपुर 'ए' गृह निर्माण सहकारी सिमिति लि., जयपुर-302020 का सभी भाग तथा हिस्सा, सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 133.33 वर्ग यार्ड्स।

4. **ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नाम**: मै. भैरवा कन्स्ट्रक्शन, ३९, लक्ष्मी नगर, पाली-३०६४०१,साथ ही: प्लॉट नं. १०३३ एवं १०३४, चाक नं. १ खसरा नं. 1558, लक्ष्मी नगर, पाली-306401, गोवर्धन लाल जांगिड़ तथा संज जांगिड़, 39, लक्ष्मी नगर, पाली-306401, ऋण खाता सं.: 1718868; ऋण राशि रु. 2995000/- (रुपये उन्नतीस लाख पंचानवे हजार मात्र), मांग सचना तिथिः 27.03.2021; मांग की गई राशिः रु. 4927718.34 (रुपये उन्चास लाख सत्ताईस हजार सात सौ अठारह एवं पैसे चौंतीस) 8 मार्च, 21 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज एनपीए तिथिः 4.7.2018; प्रतिभृति का विवरणः प्लॉट नं. 1033-1034, लक्ष्मी नगर, राज श्री के निकट, चाक नं. 1, खसरा नं. 1558, लक्ष्मी नगर, पाली-306401 माप, स्कुल पाली राजस्थान-306401, एरिया 750.36 वर्ग फीट, सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः रोड, पश्चिमः प्लॉट का भाग, पूर्वः अन्य एवं दक्षिणः प्लॉट नं. 1035

🚺 ऋणधारक एवं सह–ऋणधारकों का नाम: मै. कचवा टेडिंग कम्पनी, 237 दिल्ली दरवाजा सोजाट सिटी सोजाट–306104, साथ ही: प्लॉट नं. 174, दिल्ली दरवाजा स्कीम, साजात-306104, विद्या देवी माली-237, दिल्ली दरवाजा, सोजात-306104, मानक चंद, 237, दिल्ली दरवाजा स्कीम, सोजात-306104, ऋण खाता सं.: 2716797; ऋण राशिः रु. 4000000 (रुपए चालीस लाख मात्र), मांग सुचना तिथिः 27.03.2021; मांग की गई राशिः रु. 5175020.37 (रुपये इक्यावन लाख पचहत्तर हजार बीस एवं पैसे सैंतीस मात्र) 26 मार्च, 21 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; प्रतिभृतियों का विवरणः सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. 174, दिल्ली दरवाजा स्कीम, महादेव टेम्पल के निकट, सोजात सिटी, पाली, राजस्थान 306104, एरिया माप 200 वर्ग यार्ड्स, सम्पत्ति की सीमाएं: उत्तर : प्लॉट नं. 167, पश्चिम : प्लॉट नं. 173, पूर्व: प्लॉट नं. 175, दक्षिण: रोड

**ऋणधारक एवं सह–ऋणधारकों का नाम**: जय जगदम्बा ट्रेडर्स, डब्ल्यू/ओ अमर सिंह, प्लॉट नं. 57 बी, राजबाग, सुखराम नगर, सुरसागर, जोधपुर-342001, साथ हीः प्लॉट नं. 57, सेक्टर-बी, राज बाग स्कीम, जोधपुर-342001, अमर सिंह गहलोत, कमला एच, गर्जन्दर सिंह गहलात, सीमा बी, सभा, प्ला नं. 57, सेक्टर-बी, सुखराम नगर. सुरसागर, जोधपुर-342001, ऋण खाता सं.: 3322102; ऋण राशिः रु. 2500000/- (रुपये पच्चीस लाख मात्र); मांग सुचना तिथिः 27.03.2021; मांग की गई राशिः रु. 3191131.21 (रुपये इक्कीस लाक इक्यानवे हजार एक सौ इकतीस एवं पैसे इक्कीस मात्र) 26 मार्च, 21 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; प्रतिभूति का विवरणः प्लॉट नं. 57, सेक्टर-बी, ,सुखराम नगर, राज बाग, ग्राम सरसागर, जोधपर, राजस्थान-342001, एरिया माप 180.55 वर्ग यार्डस का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तर : प्लॉट नं. 58. पश्चिम : प्लॉट नं. 66, पूर्वः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 55

7. ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नाम: धनराज सेन तथा जमना डी, दोनोः 29 बालाजी नगर, जोधपुर, ख. नं. 166/5, जोधपुर-342001 साथ र्ह प्लॉट नं. २९, बालाजी नगर स्कीम, खसरा नं. 166/5 एवं 166/6, ग्राम दिगारी, जोधपुर-342001; ऋण खाता सं.: 380160; ऋण राशिः रु. 3000000/- (रुपये तीस लाख मात्र), मांग सचना तिथिः 27.03.2021: मांग की गई राशिः रु. 3537716.67/- (रुपये पैंतीस लाख सैंतीस हजार सात सौ सोलह एवं पैसे सडसठ मात्र) 26 मार्च, 21 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए तिथिः 4.12.2019. प्रतिभित का विवरणः प्लॉट नं. 29, खसरा नं. 166/5 एवं 166/6, ग्राम दिगारी, बालाजी नगर योजना, जोधपुर, राजस्थान-342001, एरिया माप 125 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा, सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तर : प्लॉट नं. 28, पश्चिम : रोड, पुर्वः प्लॉट नं. 24 एवं दक्षिणः प्लॉट नं. 30

👪 🛮 ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नाम: नेशनल रॉयल फिल्टर, प्लॉट नं. 22, सिंघवी भवन के सामने, कबीर नगर, जोधपुर, जोधपुर-342001, साथ हीः प्लॉट (पट्टा नं. 570/2001) वार्ड नं. 32, बख्ता सागर, जोधपुर-342001, आदिल अहमद गोल पुलिस चौकी के पास, जूनी बागर चौकी जोधपुर, जोधपुर-342001, शमीम बानो, 776, बट्टा सागर, जोधपुर-342001, ऋण खाता सं.: 6170976; ऋण राशिः रु. 30,30000/- (रुपये तीस लाख तीस हजार मात्र); मांग सूचना तिथिः 27.03.2021; मांग की गई राशिः रु. 3709644.61 (रुपये सैंतीस लाख नौ हजार छह सौ चौआलिस एवं पैसे इकसठ मात्र) 26 मार्च, 21 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए तिथिः 3.2.2020, प्रतिभृतियों का विवरणः प्लॉट (पट्टा नं. 570/2002, कच्ची-बस्ती, बट्टा सागर, बागर चौक, जोधपुर-342001 का सभी भाग तथा हिस्सा, सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तर : रोड, पश्चिम : अन्नराज जोशी, पूर्वः यूसुफ अलीं, दक्षिणः शंकरजी

**9. ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नाम:** जय श्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कार स्टीरियो, निकट प्रताप टॉकीज, भीलवार, भीलवारा, एचओ-311001, साथ हीं: 222 प्रताप टॉकीज के पास, भीलवारा-311001, साथ हीं: शॉप, भू तल, कचोलिया बिल्डिंग के सामने कॉम्प्लैक्स में, प्रताप टॉकीज रोड, भीलवारा,, भीलवारा 311001. रोशन लाल प्रजापत. सविता प्रजापत. पार्वती देवी प्रजापत तथा पंकज प्रजापत ऋण खाता सं.: 4567855 एवं 2630093: ऋण राशिः रु. 709231/- ( रुपये सात लाख नौ हजार दो सौ इक्कतीस मात्र), ऋण खाता सं. 4567855 द्वारा तथा रु. 3000000 (रुपये तीस लाख मात्र) ऋण खाता सं. 2630093 द्वारा; मांग सचना तिथिः २७.०३.२०२१, मांग की गई राशिः दोनों ऋण खाताओं में रु. ३९२३०००.९४ (रुपये उन्तालिस लाख तैईस हजार चौडानवे मात्र ) २६ मार्च, २१ को तथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसुली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; एनपीए तिथिः 03.01.2020; प्रतिभृति का विवरणः भू तल पर स्थित शॉप कचोलिया बिल्डिंग के सामने कॉम्प्लैक्स में, प्रताप टॉकीज रोड, भीलवारा, राजस्थान-311001, एरिया माप 106 वर्ग फीट की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः उसी सम्पत्ति का भाग पश्चिमः उसी सम्पत्ति का भाग, पर्वः जजवो की गली एवं दक्षिणः उसी सम्पत्ति का भाग

अतएव, आप ऋणधारकों तथा सह–ऋणधारकों एवं गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभृतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के (ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकष्ट की जाती है।)

कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। किसी भी प्रकार की पृछताछ के लिए सम्पर्क करें: श्री प्रशांत राठौर, फोन: 9928818000 एवं जीतेन्द्र सिंह 9983291777

स्थानः मुम्बई तिथि: 18.06.2021 मै. एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए (प्राधिकृत अधिकारी

201 🕸 कनोटका बक्रीलामटड

Loss of shares

Notice is hereby given that the Share Certificate

No. (s) . 15951 for total 100 Equity Shares

bearing Distinctive No.(s) . 2921441 to

2921540 of Bharat Rasayan Limited under

folio no 0013145, registered office 1501,

Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-

110008, Delhi standing in the name (a) of Renu

Khemka ("the shareholder") has / have been

ost and that an application for issue of duplicate

share certificate(s) in respect thereof bas/have

been made to the Company's Registrars &

Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd.

Nobel Heights, 1" floor, Plot NH 2, C-1 Block

LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New

To whom objection, if any, against issuance of

such duplicate share certificates) should be

made within 15 days from the date of

publication of this notice. The Public are

cautioned against dealing in any way with these

Place: Patna Khemka House, Ashok Raj Path,

PUBLIC NOTICE

Reg: Plot No. 98, Phase-I, Sector-6

Plot No. 98, Phase-I. Sector-6, IMT Manesa

Measuring 1012.50 Sq. meter was allotted by the

corporation to Sh. Virendra Kumar Chanana (Sh

V.K. Chanana) Vide Re-Allotment Letter date

09.04.2004. The Corporation has been informed

that the original allottee Sh. Virendra Kuma

Chanana has expired on 03.07.2020. The legal

heirs of the deceased allottee, Smt. Santos

Chanana & Sh. Anish Chanana have approached

the Corporation for transfer of the plot in question

in favour of Sh. Anish Chanana S/o. Late Sh.

The Corporation is in process of considering the

request & transferring the said plot in the name of

Sh. Anish Chanana S/o. Late Sh. Virendra Kuma

Chanana. Through this public notice it is here b

informed that in case, any of the legal heirs of lat-

Sh. Virendra Kumar Chanana or any other perso

having reservation/objection to the said transfe

may file his/her objection in writing before the

undersigned or Addl. General Manager (Estate

ISIDC Limited, C-13-14, Sector-6, Panchikula

Haryana along with an affidavit within a period of

0 days from the date of publication of this notice I

case no response is received within the aforesail

period, it will be presumed that no one has an

bjection to transfer of the said plot in the name

Sh. Anish Chanana S/o, Late Sh. Virendra Kuma

Chanana and the corporation shall go ahead wit

Estate Manager

For & behalf of

Haryana State Industrial and

Infrastructure Dev. Corpn. Ltd.

HSIIDC, IMT Manesar, District-Gurugran

Virendra Kumar Chanana

transfer of plot in his favour.

**IMT Manesar** 

Name[s] of holder[s] Applicant

Muradpur, P.M.CH, Arya Kumar

Renu Khemka (claimant)

Road, Patna-800004

Delhi-110058.

Date: 17.06.2021

सम्पूर्ण भारत में, आपका पारिवारिक बैंक मुख्य कार्यालय: मंगलुरु-575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा

8-बी , प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पुसा रोड, नई दिल्ली -110060

ई-मेल : delhiarm@ktkbank.com, मो.: 9319891680 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने 08.09.2017 को भौतिक कब्जा कर लिया है, प्रतिभृत लेनदार कर्नाटक बैंक लिमिटेड, विकासपुरी शाखा, दिल्ली, एफ-119, भूतल, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 के (1) मैसर्स अरिहन्त इंडस्ट्रीज, इसके प्रोपराइटर श्री श्रीपाल जैन, रूम नं. 201-202, प्लॉट नं. 189-191, दूसरी मंजिल, लारेन्स रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110035 द्वारा प्रतिनिधानित, (2) श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री दौलत राम जैन, आरजेड-116, सन्तोष पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, (3) श्रीमती रेनू जैन पत्नी श्री श्रीपाल जैन, आरजेड-116, सन्तोष पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली, कर्जदारों/जमानतियों/सहदायित्वधारियों से लागतों सहित 01.09.2020 से भावी ब्याज के साथ ओवरड़ाफ्ट खाता सं. 5627000600001301 के तहत रु. 3,59,19,249.25 (रुपये तीन करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार दो सौ उनचास एवं पच्चीस

अचल सम्पात्त का विवरण सहित, खसरा नं. 44/12, ग्राम हस्तसाल, दिल्ली सम्पदा, आबादी मोहन गार्डन कॉलोनी, ब्लॉक-एल-II. उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 का सम्पर्ण भाग, श्रीमती रेन जैन से सम्बन्धित सीमाएं : पूर्व : सम्पत्ति का भाग, पश्चिम : सम्पत्ति का भाग, उत्तर : 40 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण

पैसे मात्र) की वसूली हेतु उसकी बिक्री 28.07.2021 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो भी है यही

है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी।

आरिक्षत मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जायेगी : रु. 77,00,000.00 (रुपये

जमा/निविदा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. ७,७०,०००,०० (रुपये सात लाख सत्तर हजार मात्र) (प्रतिभृत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय−सीमा के सम्बन्ध में कर्जदारों∕बंधककर्ताओं क ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(यह सुचना कर्जदाताओं/जमानितयों के लिए प्रतिभूत हित प्रवर्तन नियम-2002 के नियम (9) वे

उपनियम (1) के तहत सुचना भी होगी।) विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कर्नाटका बैंक लिमिटेड की वेबसाइट www.kar natakabank.com में "mortgaged assets for sale" शीर्षक के तहत लिंक देखें। ई-नीलामी 05 मिनट के असीमित विस्तार सहित 28.07.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से संचालित की जायेगी। इच्छुक संविदाकार को https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत करना तथा निःशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है तथा मैसर्स 4क्लोजर, फ्लैट नं. 102, प्लॉट नं. 20, अमृत अपार्टमेंट्स, मोतीनगर, हैदराबाद-500018, मोबाइल : 8142000809, ई-मेल vikas@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई-नीलामी के विषय

तिथि : 17.06.2021 मुख्य प्रबन्धक एवं अधिकृत प्राधिकारी

ऑनलाइन प्रशिक्षण (06.07.2021 से सम्भावित) प्राप्त कर सकते हैं।

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND **EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS)** REGULATIONS, 2011, AS AMENDED FROM TIME TO TIME, ("SEBI (SAST) REGULATIONS") WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

स्थान : दिल्ली

## MAJESCO LIMITED

Registered Office: Mastek New Development Centre, MBP-P-136 Mahape, Navi Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, India - 400 710; Telefax. No.: +91 22 6150 1800; Website: www.majescoltd.in; CIN; L72300MH2013PLC244874

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 74,43,720 (SEVENTY FOUR LAKHS FORTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 (RUPEES FIVE EACH) (EQUITY SHARES) REPRESENTING 26.00% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF MAJESCO LIMITED ("TARGET COMPANY") AT A PRICE OF ₹ 77 (RUPEES SEVENTY SEVEN ONLY) ("OFFER PRICE") PER EQUITY SHARE FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY AURUM PLATZ IT PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER") ("OPEN OFFER" OR "OFFER"). NO PERSON IS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER FOR THE PURPOSE OF THIS OPEN OFFER.

This post offer advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by DAM Capital Advisors Limited (formerly IDFC)

Securities Limited), the manager to the Offer ("Manager"), in respect to the Offer for and on behalf of the Acquirer, in compliance with

Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, in respect of the Offer. This Post Offer Advertisement is to be read together with: (a) the Public Announcement dated March 21, 2021 ("Public

Announcement" or "PA"); (b) the Detailed Public Statement dated March 25, 2021 that was published in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Navshakti (Marathi) (collectively referred to as "Newspapers") on March 26, 2021 ("DPS"); (c) the Letter of Offer dated May 6, 2021 ("LOF"); and (d) the Offer Opening Public Announcement curn Corrigendum to the DPS dated May 17, 2021 which was published in the Newspapers on May 18, 2021. This Post Offer Advertisement is being published in all the Newspapers.

Capitalised terms used herein but not specifically defined shall have the same meaning ascribed to such terms in the LOF.

1. Name of the Target Company Majesco Limited

2. Name of the Acquirer and PAC Aurum Platz IT Private Limited No person is acting in concert with the Acquirer for the purpose of this Open Offer

Name of the Manager to the Offer 4. Name of the Registrar to the Offer

Offer Details:

a. Date of Opening of the Offer b. Date of Closing of the Offer

Date of payment of consideration Details of Acquisition:

KFin Technologies Private Limited (formerly Karvy Fintech Private Limited) May 20, 2021 (Thursday)

DAM Capital Advisors Limited (formerly IDFC Securities Limited)

June 03, 2021 (Thursday) June 16, 2021 (Wednesday)

| Sr. No. | Particulars   | Proposed    | in the LOF        | Ac          | ctuals         |  |  |
|---------|---|-------------|-------------------|-------------|----------------|--|--|
| 7.1     | Offer Price (per Equity Share)  |             | ₹77               |             | ₹77            |  |  |
| 7.2     | Aggregate number of Equity Shares tendered in the Offer                                   |             | 74,43,720"        |             | 58,01,180      |  |  |
| 7.3     | Aggregate number of Equity Shares accepted in the Offer                                   |             | 74,43,720"        |             | 58,01,180      |  |  |
| 7.4     | Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied<br>by Offer Price per Equity Share) | ₹57         | 7,31,66,440*      | ₹44         | 1,66,90,860    |  |  |
| 7.5     | Shareholding of the Acquirer before agreement /<br>Public Announcement                    |             |                   |             |                |  |  |
|         | Number of Equity Shares   |             | Nil               |             | Nil            |  |  |
|         | % of Voting Share Capital*  |             | Nil               |             | Nil            |  |  |
| 7.6     | Equity Shares acquired by way of agreement by the Acquirer                                |             | vernessant, encor |             |                |  |  |
|         | Number of Equity Shares   | 1           | 42,31,679**       | 4           | 42,31,679**    |  |  |
|         | % of Voting Share Capital*  |             | 14.78%**          |             | 14.78%**       |  |  |
| 7.7     | Equity Shares acquired by way of Open Offer by the Acquirer                               |             |                   |             |                |  |  |
|         | Number of Equity Shares   |             | 74,43,720"        |             | 58,01,180      |  |  |
|         | % of Voting Share Capital*  |             | 26.00%"           | 20.26%      |                |  |  |
| 7.8     | Equity Shares acquired after Detailed Public Statement                                    |             |                   |             |                |  |  |
|         | <ul> <li>Number of Equity Shares acquired</li> </ul>                                      |             | Nil               |             | Nil            |  |  |
|         | Price of the Equity Shares acquired   |             | Nil               |             | Nil            |  |  |
|         | % of Voting Share Capital   | Nii         |                   |             | Nil            |  |  |
| 7.9     | Post Offer shareholding of Acquirer   |             |                   |             |                |  |  |
|         | Number of Equity Shares   |             | 1,16,75,399"      |             | 1,00,32,859*** |  |  |
|         | % of Voting Share Capital*  |             | 40.78%"           |             | 35.04% ERE     |  |  |
| 7.10    | Pre & Post Offer shareholding of the Public   | Pre Offer   | Post Offer        | Pre Offer   | Post Offer     |  |  |
|         | Number of Equity Shares   | 2,43,98,010 | 1,69,54,290       | 2,43,98,010 | 1,85,96,830    |  |  |
|         | N   | 05.000      | E0 000/           | 05 000/     | 01.0001        |  |  |

\*The total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis as of the 10th (Tenth) Working Day from the Closure of the Tendering Period for the Open Offer. \*\* On March 21, 2021, the Acquirer has entered into a SPA to acquire 42,31,679 Equity Shares representing 14.78% of the Voting Share Capital of the Target Company from the Sellers. The Acquirer has not yet acquired the Equity Shares from the Sellers in terms of

85.22%

59.22%

85.22%

Assuming full acceptance of the Offer. Assuming full acceptance of the Offer. This shareholding includes 42,31,679 Equity Shares representing 14.78% of the Voting Share

Capital of the Target Company to be acquired by the Acquirer from the Sellers in terms of the SPA.

\*\*This shareholding includes 42,31,679 Equity Shares representing 14.78% of the Voting Share Capital of the Target Company to be

acquired by the Acquirer from the Sellers in terms of the SPA. 8. The Acquirer and its directors in their capacity as directors of the Acquirer, severally and jointly, accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and for the obligation of the Acquirer as set out in the SEBI (SAST)

 In this Post Offer Advertisement, all references to "INR" or Indian Rupees or "₹" are references to Indian National Rupee(s). 10. In relation to the information pertaining to the Sellers and Target Company, the Acquirer has relied on the information provided and, or, confirmed by the Target Company and, or, the Sellers, any published information, and publicly available sources. The

Acquirer and the Manager to the Offer have not independently verified the accuracy of such information. 11. A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of the SEBI at www.sebi.gov.in, the BSE Limited at www.bseindia.com, the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and at the registered office of the Target Company.

Issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer MANAGER TO THE OFFER

· % of Voting Share Capital\*

**DAM Capital Advisors Limited** (formerly IDFC Securities Limited)

One BKC, C Wing, Unit No. 1511, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, India Tel: +91 22 4202 2500; Fax: +91 22 4202 2504

E-mail: majesco.openoffer@damcapital.in Website: http://www.damcapital.in/ Contact Person: Mr. Chandresh Sharma SEBI Registration Number: MB/INM000011336 Validity Period: Permanent

Rangareddi 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551 Toll free number: 18003454001 Email: Majesco.openoffer@kfintech.com Website: www.kfintech.com

Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad,

MFINTECH

Kfin Technologies Private Limited

(formerly Karvy Fintech Private Limited)

REGISTRAR TO THE OFFER

Selenium, Tower B, Plot No- 31 and 32, Financial District,

Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com Contact Person: Mr. M Murali Krishna SEBI Registration No.: INR000000221

Place: Mumbai, India Date: June 17, 2021 CONCEPT

www.readwhere.com